



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

20 नवंबर, 2020

संख्या 47

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	(₹ करोड़)				
	2019	2020		घट - बढ़	
	15 नवंबर	6 नवंबर	13 नवंबर	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2243141	2707017	2750861	43844	507720
1.1 संचलन में नोट	2243130	2707002	2750848	43846	507718
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	15	13	-2	2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	537618	450857	459105	8248	-78513
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4312	5426	5398	-28	1086
2.6 अन्य बैंक	33840	28256	29783	1527	-4057
2.7 अन्य	317416	989243	994154	4911	676738
3 अन्य देयताएं	1137917	1472092	1481763	9671	343846
कुल देयताएं / आस्तियां	4274387	5653033	5721207	68174	1446820
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3016834	3924569	3987480	62911	970646
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	191868	278941	271280	-7661	79412
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	996199	1281845	1282271	426	286072
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	25915	—	—	—	-25915
4.2 राज्य सरकारें	7630	9037	21447	12410	13817
4.3 नाबार्ड	—	23402	23402	—	23402
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	23340	114463	114588	125	91248
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
4.8 अन्य	5417	12974	12974	0	7557
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
5.2 खज़ाना	—	—	—	—	—
6 निवेश	1964	1964	1964	0	—
7 अन्य आस्तियां	5220	5838	5801	-37	581

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	13 नवंबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4274151	572771	55328	4277	671996	94964	1054183	124522
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3956961	530268	62753	5526	623146	88055	965223	113796
1.2 स्वर्ण	271280	36354	-7661	-1233	40753	5776	79412	9644
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11103	1488	57	0	303	55	795	53
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34807	4661	179	-15	7794	1078	8753	1028

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

20 नवंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹434428 करोड़	2020													
	7 नवंबर	8 नवंबर	9 नवंबर	10 नवंबर	11 नवंबर	12 नवंबर	13 नवंबर	14 नवंबर	15 नवंबर	16 नवंबर	17 नवंबर	18 नवंबर	19 नवंबर	20 नवंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	433807	433674	424739	425036	426032	422217	459105							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	99.9	99.8	97.8	97.8	98.1	97.2	105.7							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	6 नवंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	203006	-2535	3252	-31342	32250	22926
1.2 बैंकों से उधार	54606	3300	-24294	-9395	-17129	-558
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16481	649	-3828	317	-787	5169
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14380641	89129	424207	813149	1172211	1382662
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	3.4	6.0	9.9	10.6
2.1.1 मांग	1492640	-12614	-185923	-124363	108593	167276
2.1.2 मीयादी	12888001	101743	610130	937512	1063617	1215386
2.2 उधारियां	258284	2945	-49423	-51155	-21144	-70547
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	604953	41052	-41943	1277	7386	103250
3 रिज़र्व बैंक से उधार	114463	-988	-157162	-171160	-83141	90937
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	537341	15399	-29603	-86105	57069	-73639
4.1 उपलब्ध नकदी	86485	1553	10739	-776	12165	869
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	450857	13846	-40342	-85329	44904	-74508
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	157891	8094	7258	2490	20030	-72415
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11775	-1150	-22163	-8498	-14767	1686
5.3 बैंकों को अग्रिम	21187	114	-4321	-9345	-7042	-4127
5.4 अन्य आस्तियां	31830	-338	-7384	-22202	9806	-3665
6 निवेश	4476607	36374	376894	729258	314826	718657
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	11.1	19.5	9.1	19.1
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4475180	36556	370371	736484	307607	725807
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1428	-183	6523	-7225	7218	-7150
7 बैंक ऋण	10404950	66082	74652	34089	734948	558575
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	0.8	0.3	8.1	5.7
7 क.1 खाद्य ऋण	83631	16972	38438	31867	19501	3583
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10321319	49110	36214	2222	715447	554992
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10236678	66870	122125	87170	750782	592560
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	24192	1033	-2110	-1466	4313	79
7 ख.3 भुनाए गए	99097	-941	-34583	-46586	-13972	-24616
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	16548	-691	-897	-3909	-2082	-7142
7 ख.5 भुनाए गए	28434	-188	-9883	-1120	-4094	-2305

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	15 नवंबर	16 अक्टूबर	23 अक्टूबर	30 अक्टूबर	6 नवंबर	13 नवंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.65	..	3.74	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	72.34	..	72.35	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	-4.42	..	4.19	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	31.07	..	31.13	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	95.70	..	89.68	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/9.00	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.60/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/6.85	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.07	3.39	3.27	3.19	3.17	3.20
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.05	3.25	3.19	3.20	3.17	3.14
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.16	3.38	3.35	3.36	3.36	3.35
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.23	3.48	3.46	3.45	3.43	3.45
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.66	5.96	5.88	5.91	5.90	5.91
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.71	73.38	73.58	73.97	74.05	74.67
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.04	85.84	86.78	86.97	87.52	88.15
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.26	3.43	3.34	3.24	3.32	3.37
3-माह	3.51	3.65	3.56	3.46	3.51	3.54
6-माह	3.93	3.95	4.00	3.89	3.94	4.07

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	6 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17911125	107416	0.6	557537	3.6	1111162	6.6	1444849	9.9	1921521	12.0
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2636629	17081	0.7	123961	6.0	286881	12.2	237345	12.2	460458	21.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1613454	-12232	-0.8	-184691	-11.4	-124238	-7.1	111823	8.4	171633	11.9
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13619385	101626	0.8	618137	5.3	945369	7.5	1088544	9.7	1279644	10.4
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41658	941	2.3	130	0.4	3150	8.2	7138	28.9	9786	30.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5716014	128795	2.3	581318	13.2	755652	15.2	590201	13.5	746205	15.0
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	996346	90892		208508		4154		279270		-14113	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4719668	37903	0.8	372810	10.4	751498	18.9	310931	8.5	760318	19.2
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11065229	65609	0.6	80470	0.8	26584	0.2	760275	7.8	602040	5.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	14934	142		-8013		1768		-1969		7584	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11050295	65467	0.6	88483	0.9	24816	0.2	762244	7.9	594456	5.7
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4447921	82326	1.9	322798	10.5	646885	17.0	404212	13.5	1054283	31.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26451	-	-	235	0.9	103	0.4	426	1.7	328	1.3
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3344489	169314	5.3	427285	17.5	318063	10.5	310265	12.2	481335	16.8
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1471603	59482	4.2	46776	4.4	93261	6.8	-40925	-3.6	366032	33.1

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	13 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3313345	53696	1.6	105923	3.8	283639	9.4	315786	12.3	436941	15.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	2447312	2777299	43846	1.6	132482	6.2	329987	13.5	253868	12.6	508046	22.4
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	494286	9747	2.0	-26199	-4.4	-49602	-9.1	55527	10.7	-81484	-14.2
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41761	103	0.2	-360	-1.1	3253	8.4	6391	25.6	10379	33.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1022936	26590		228491		30744		275471		-7506	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1001531	14180		222381		11790		273572		-21323	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-513291	-18480		-403278		-312398		-322826		-262864	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-528027	-18282		-395296		-313968		-320888		-270219	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4258517	55250	1.3	359906	12.6	668114	18.6	382252	13.5	1050024	32.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26451			235	0.9	103	0.4	426	1.7	328	1.3
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1481267	9664	0.7	79431	7.5	102925	7.5	19537	1.7	343041	30.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएसओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 नवंबर 2020	-	642236	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-642228
10 नवंबर 2020	-	670096	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-670095
11 नवंबर 2020	-	659861	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-659561
12 नवंबर 2020	-	698316	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-491	-698795
13 नवंबर 2020	-	666219	-	-	143	-	-	10000	10000	-	-	-	-236	-666312
14 नवंबर 2020	-	298	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-261
15 नवंबर 2020	-	193	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-180

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं।

**'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकोतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	145.8	147.2	156.4	158.4	1.3	6.6	7.6
1.1 ग्रामीण	146.7	148.3	157.5	159.7	1.4	6.6	7.7
1.2 शहरी	144.7	146.0	155.2	156.8	1.0	6.4	7.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	-	-	118.0	..	-	-	-
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.3	122.0	122.9	123.8	0.7	2.8	1.5
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	143.0	145.5	150.3	152.4	1.4	10.9	4.7
3.2 ईंधन और बिजली	100.6	102.3	91.0	91.1	0.1	- 8.4	- 10.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.9	117.8	119.8	120.3	0.4	1.4	2.1

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
9 अक्टूबर 2020	74825	877	3.53 - 5.75
23 अक्टूबर 2020	78340	4635	3.65 - 4.25

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
15 अक्टूबर 2020	395016	81950	3.25 - 11.94
31 अक्टूबर 2020	380112	40839	3.19 - 14.19

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	15 नवंबर 2019	6 नवंबर 2020	13 नवंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	14933	9975	14308
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5458	3642	607
3 सीबीएलओ#	370683	349122	385681
4 बाजार रेपो	239155	321779	326228
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4512	172	3320

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

13 नवंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2360	10912	72680	214831
182-दिवसीय	149567	49692	4103	293969
364-दिवसीय	132610	127705	15757	402384
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (13 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (15 नवंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (13 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (15 नवंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	905000	522000	710000	774428	420972	473972
2. राज्य सरकारें	464132	307306	634521	381077	218254	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।